

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| सं. 800] | नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 18, 2015/अग्रहायण 27, 1937   |
| No. 800] | NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 2015/ AGRAHAYANA 27, 1937 |

---

**वित्त मंत्रालय**

**(राजस्व विभाग)**

**(केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2015

**सं. 27/2015-सेवाकर**

**सा.का.नि. 987(अ).—**वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा सेवा कर नियमवाली 1994, में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, यथा-

1. (1) इन नियमों को सेवा कर (चतुर्थ संशोधन) नियमवाली, 2015 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 6 में, उपनियम (1) में, चौथे परंतुक में, "तमिलनाडु राज्य" शब्दों के स्थान पर "तमिलनाडु राज्य और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र (माही और यनम को छोड़कर)" शब्दों को अतः स्थापित किया जाएगा ।

[फा. सं. 137/78/2015-सेवाकर]

हिमानी भयाना, अवर सचिव

**टिप्पणी :** मूल नियमावली को अधिसूचना सं. 2/94-सेवाकर, दिनांक 28 जून, 1994, सा.का.नि. 546(अ), दिनांक 28 जून, 1994 के तहत, के द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 26/2015-सेवाकर, दिनांक 9 दिसम्बर, 2015, सा.का.नि. 948(अ), दिनांक 9 दिसम्बर, 2015 के द्वारा संशोधन किया गया है।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18<sup>th</sup> December, 2015

**No. 27/2015- Service Tax**

**G.S.R. 987(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Service Tax Rules, 1994, namely:—

1. (1) These rules may be called the Service Tax (Fourth Amendment) Rules, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Service Tax Rules, 1994, in rule 6, in sub-rule (1), in the fourth proviso, for the words “State of Tamil Nadu”, the words “State of Tamil Nadu and the Union Territory of Puducherry (except Mahe & Yanam)” shall be substituted.

[F. No. 137/78/2015-Service Tax]

HIMANI BHAYANA, Under Secy.

**Note.-** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification No. 2/94- Service Tax, dated the 28th June, 1994 vide number G.S.R. 546 (E), dated the 28<sup>th</sup> June, 1994 and last amended vide notification No. 26/2015-Service Tax, dated the 9<sup>th</sup> December, 2015 vide number G.S.R. 948 (E), dated the 9<sup>th</sup> December, 2015.